



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1940 (श०)

संख्या- 438 राँची, सोमवार,

23 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

16 मार्च, 2018

संख्या-14/स्थानीयता नीति-14-04/2018 का० 1917-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-916, दिनांक 2 फरवरी, 2018 एवं अधिसूचना सं०-1072, दिनांक 8 फरवरी, 2018 द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित जिलों में जिलास्तर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी प्रस्ताव की समीक्षा भारत के संविधान के संबंधित उपबंधों एवं अन्य राज्यों में एतदर्थ लागू प्रावधानों के संदर्भ में करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति में सदस्य सचिव के रूप में प्रधान सचिव/सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को पदनाम से नामित किया जाता है । साथ ही उच्च स्तरीय समिति की समयावधि एक माह और विस्तारित की जाती है ।

2. अधिसूचना सं०-916, दिनांक 2 फरवरी, 2018 एवं अधिसूचना सं०-1072, दिनांक 8 फरवरी, 2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । उक्त अधिसूचना की अन्य कंडिकाएं यथावत रहेंगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव ।
